



May 10, 2018

BSE Limited
Floor 25, P. J. Towers
Dalal Street, Fort
Mumbai - 400 001

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza
Bandra Kurla Complex
Bandra (E)
Mumbai - 400 051

Dear Sirs,

Sub.: Submission of copies of published Audited Consolidated Financial Results

In continuation of our letter dated May 9, 2018, we enclose copies of the Audited Consolidated Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2018 published on May 10, 2018 in MINT (English) and HINDUSTAN (Hindi).

This is for information and records.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Jubilant Life Sciences Limited

Rajiv Shah
Company Secretary

Encl.: as above

A Jubilant Bhartia Company

OUR VALUES



Jubilant Life Sciences Limited

1-A, Sector 16-A,
Noida-201 301, UP, India
Tel: +91 120 4361000
Fax: +91 120 4234895-96
www.jubl.com

Regd Office:
Bhartiagram, Gajraula
Distt. Amroha - 244 223,
UP, India
CIN : L24116UP1978PLC004624

Jubilant Life Sciences Limited
 Regd. Off.: Bharti Nagar, Gajraula, District Amroha - 244 223 (U.P.) | CIN: L24116UP1978PLC004624
 Website: www.jubil.com | Email: investors@jubil.com | Tel: +91-5924-252353-69 | Fax: +91-5924-252352

Extract of Consolidated Audited Results for the Quarter and Year ended 31 March 2018 (₹ in Lakhs)

Particulars	Quarter Ended			Year Ended		
	31 March 2018 (Audited)	31 December 2017 (Unaudited)	31 March 2017 (Audited)	31 March 2018 (Audited)	31 March 2017 (Audited)	31 March 2017 (Audited)
Total revenue from operations	225196	206776	164142	755781	606332	
Net Profit before tax, exceptional and extraordinary items	22556	26118	16010	85908	73764	
Net Profit before tax (after exceptional and extraordinary items)	22556	26118	16010	85908	73764	
Net Profit after tax, exceptional and extraordinary items	15240	21284	14903	63442	57462	
Total comprehensive income after tax (comprising profit/loss) for the period after tax and other comprehensive income after tax	13908	17192	11265	69881	51692	
Equity share capital	1558	1558	1557	1558	1557	
Reserves (excluding revaluation reserve)				407095	342047	
Earnings per share of ₹ 1 each before and after extraordinary items (Not annualized)						
Basic (₹)	9.94	13.64	9.63	41.25	36.93	
Diluted (₹)	9.94	13.64	9.63	41.25	36.91	

- The Board has recommended a dividend of ₹ 3 per equity share of ₹ 1 each fully paid up amounting to ₹ 5781 lakhs (including dividend distribution tax), subject to approval in the Annual General Meeting.
- The Company has opted to publish consolidated audited results for the year ending 31 March 2018. The standalone audited results are available under Investor Relations section of our website at www.jubil.com and under Financial Results at Corporates section of www.nseindia.com and www.bseindia.com. Key standalone financial information of the Company is as under:

Particulars	Quarter Ended			Year Ended		
	31 March 2018 (Audited)	31 December 2017 (Unaudited)	31 March 2017 (Audited)	31 March 2018 (Audited)	31 March 2017 (Audited)	31 March 2017 (Audited)
Total revenue from operations	96443	93383	75993	334301	262298	
Profit before tax	11878	14323	3034	36769	11452	
Net profit after tax	8639	9788	2583	26344	7919	

- Sales/Income from operations (included in total revenue from operations) for the current periods and immediately preceding quarter is not comparable with previous periods since the same is net of Goods and Services Tax (GST) whereas excise duty formed part of expenses till 30 June 2017. The comparative sales/income from operations of the Company is given below:

Particulars	Quarter Ended			Year Ended		
	31 March 2018 (Audited)	31 December 2017 (Unaudited)	31 March 2017 (Audited)	31 March 2018 (Audited)	31 March 2017 (Audited)	31 March 2017 (Audited)
Sales/Income from operations (as reported)	222377	204147	160903	746475	591016	
Less: Excise duty on sales	-	-	4324	3997	14489	
Sales/Income from operations (net of excise duty)	222377	204147	156579	742478	576527	

- Depreciation and amortization expense for the quarter and year ended 31 March 2018 includes ₹ 9102 lakhs representing one time charge of product development expenses due to rationalization of product portfolio to reflect the current market conditions prevailing in the global generic markets, US in particular.
- The above consolidated audited results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 9 May 2018. The figures for the quarter ended 31 March 2018 and the corresponding quarter ended in the previous year, as reported in these consolidated financial results, are the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year and the published year to date figures up to the end of third quarter of the relevant financial year. Also, the figures up to the end of the third quarter had only been reviewed and not subjected to audit. Further, previous period figures have been regrouped / reclassified to conform to the current period's classification.
- The above is an extract of the detailed format of the consolidated audited results for the quarter and year ended 31 March 2018 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the consolidated audited results for the quarter and year ended 31 March 2018 is available under Investor Relations section of our website at www.jubil.com and under Financial Results at Corporates section of www.nseindia.com and www.bseindia.com.

Place : Noida
Date : 9 May 2018

Hari S. Bhartia
Co-Chairman & Managing Director

JINDAL STEEL & POWER LIMITED
 (CIN: L27105HR1979PLC009913)
 Regd. Office: O. P. Jindal Marg, Hisar-125005 (Haryana) | Corporate Office: Jindal Centre, 12 Bhikaji Cama Place, New Delhi -110066
 Tel: +91 11 4148 2000 | Fax: +91 11 2616 1271 | Email: jspinfo@jindalsteel.com | Website: www.jindalsteelpower.com

EXTRACT OF CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED ON 31ST MARCH, 2018 (₹ crore except per share data)

S. No.	Particulars	Quarter ended on 31st March, 2018	Quarter ended on 31st December, 2017	Quarter ended on 31st March, 2017	Year ended on 31st March, 2018	Year ended on 31st March, 2017
		Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited
1	Total Income from Operations(net)	8,586.77	6,992.56	6,756.07	27,841.32	22,696.24
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and Extraordinary Items)	105.71	(322.66)	(309.03)	(1,276.69)	(2,670.59)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional Items)	(331.93)	(322.66)	(55.62)	(1,864.05)	(3,042.90)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional Items)	(426.35)	(276.99)	(98.37)	(1,624.24)	(2,540.22)
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax))	(583.94)	(211.57)	(9.05)	(1,671.69)	(2,662.42)
6	Paid up Equity Share Capital (Face Value of ₹ 1 each)	96.79	91.64	91.50	96.79	91.50
7	Other equity(excluding revaluation reserve)				30,283.02	29,959.03
8	Net Worth				29,284.09	30,680.91
9	Paid up debt capital/outstanding debt				42,962.05	45,850.50
10	Debt Equity Ratio				1.43	1.55
11	Earnings Per Share (Face Value of ₹ 1 each) (EPS for the Quarter not annualized)					
	Basic:	(3.35)	(2.91)	(1.09)	(15.38)	(27.73)
	Diluted:	(3.35)	(2.91)	(1.09)	(15.38)	(27.73)
12	Capital Redemption Reserve				72.00	72.00
13	Debiture Redemption reserve				1,384.21	1,265.18
14	Debt Service Coverage Ratio				1.17	1.09
15	Interest service Coverage Ratio				1.93	1.45

Notes:
 1. The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results for the quarter and year ended on 31st March, 2018, filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Audited Financial Results for the quarter and year ended on 31st March, 2018, is available on the website of Stock Exchanges at (www.bseindia.com / www.nseindia.com) as well as on the Company's Website at (www.jindalsteel.com).

2. These Audited Financial Results have been reviewed by the Audit Committee and were approved by the Board of Directors in their meetings held on 9th May, 2018.

KEY NUMBERS OF FINANCIAL RESULTS ON STANDALONE BASIS (₹ crore)

S. No.	Particulars	Quarter ended on 31st March, 2018	Quarter ended on 31st December, 2017	Quarter ended on 31st March, 2017	Year ended on 31st March, 2018	Year ended on 31st March, 2017
1	Turnover	5,751.62	4,272.12	4,545.41	17,523.04	15,493.61
2	Profit / (Loss) before Tax	169.82	(138.16)	(81.18)	(671.78)	(1,456.98)
3	Profit / (Loss) after Tax	145.08	(73.74)	(116.09)	(381.61)	(886.45)

By Order of the Board
NAVEEN JINDAL
CHAIRMAN

Place: New Delhi
Date: 9th May, 2018

POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED
 (A Govt. of India Enterprise)
 NORTHERN REGION TRANSMISSION SYSTEM-I
 08-26, GND Bhawan, Raj Road Complex, Jammu-180012 (J&K), Email ID: pgrn1@powergrid.co.in
 Tel: 0191-2473469; Website: www.powergrid.co.in; CIN: L40101DL1986CO08321

Corrigendum No. 1 to Invitation for Bids (IFB) published on 04.05.2018

1.0 The bidding schedule in respect of following Package have been extended / revised. For details please visit our website <https://www.powergrid.co.in> or portal of <https://e-tender.powergrid.in>

(i) Procurement of 336kV, 216kV and 120kV Surge Arrestors for various substations of POWERGRID NR-I, Package No. N2JM/C&M/IM/11(18).

2.0 All other terms & conditions of the IFB remain unaltered.
 By: Mananzer (CSM)

*Give a missed call on toll free no. 18002003004 to get MOP.aspx

Uttar Pradesh Bhumii Sudhar Nigam
 A U.P. Government Undertaking
 T-109, Block B, Sector-10, Gurgaon, Haryana-122001 (Gurgaon)
 Toll Free No. 1800180181; Phone: 922-372999; Website: www.upbns.com

e-bid Notification

UPBNS invites e-bids from eligible bidders for procurement of Zinc Subphosphate. Bid no. _____

Description of item	Start date of download of bids	Last date of upload of bids
01 Zinc Subphosphate (Zinc not less than 21%)	10.05.2018 from 10 AM	06.06.2018 till 4 PM

Detailed information related to bids can be downloaded from website <https://e-tender.upbns.in>. All detailed information, amendment, corrigendum etc. will be issued only on above website. Eligible bidders can upload online bids on <https://e-tender.upbns.in> after registration in the office of U.P. Electronics Corporation Ltd., T-109, Block B, Sector-10, Gurgaon, Haryana-122001. Managing Director

TATA POWER DELHI DISTRIBUTION LIMITED
 A Tata Power and Delhi Government Joint Venture
 Regd. Office: NDL House, Hudson Lines, Kingsway Camp, Delhi 110 009
 Tel: 8912222; Fax: 27499042; Email: TPD@tatapowerddl.com
 CIN No: U40190DL2009PLC11526; Website: www.tatapowerddl.com

NOTICE INVITING TENDERS May 10, 2018

TATA Power-DDL invites tenders as per following details:

Tender Enquiry No.	Work Description	Estimated Cost(₹)	Availability of Bid Document	Last Date & Time of Bid Submission/ Date and time of Opening of bids
TPDDL/ENGG/ENQ/20000100318-19	Rate Contract for Supply of Distribution Box (DSW-Poly-carbonate).	4.06 Crs / 3.38 Crs	10.05.2018	31.05.2018: 1600 Hrs / 31.05.2018: 1600 Hrs
TPDDL/ENGG/ENQ/20000100218-19	Construction of TATA Smart Energy Innovation Centre at Civil Lines, New Delhi	7.30 Crs / 12.97 Crs	10.05.2018	31.05.2018: 1500 Hrs / 31.05.2018: 1600 Hrs
TPDDL/ENGG/ENQ/20000100418-19	RC for pipes, fittings & MS work related works at various locations across TATA Power-DDL	1.14 Crs / 1.40 Crs	11.05.2018	01.06.2018: 1500 Hrs / 01.06.2018: 1600 Hrs
TPDDL/ENGG/ENQ/20000100518-19	RC for Misc. work in operation related Civil Electrical Works in TATA Power-DDL	6.45 Crs / 1.15 Crs	11.05.2018	01.06.2018: 1500 Hrs / 01.06.2018: 1630 Hrs

CORRIGENDUM

Tender Enquiry No.	Work Description	Previously Published Date	Revised Due Date & Time of Bid Submission/ Date & time of opening of bids
TPDDL/ENGG/ENQ/20000099718-19	Rate Contract for Laptops	26.04.2018	17.05.2018 at 1600 Hrs (Revision in BOM)

Complete tender and corrigendum document is available on our website www.tatapowerddl.com → Vendors Zone → Tender / Corrigendum Documents
 Contracts - 011-66112222

NMDC Limited
 (A Government of India Enterprise)
 Xth Floor, 103-311A, Conna Place, New Delhi, Hyderabad - 500 028.
 CIN: L19199AP1986SO00167

OPEN TENDER NOTIFICATION

Tender Enquiry No. : HO (Contracts)/VSP/SY/2018/168
 DATED : 10-05-2018
 MSTC Ref. No. : NMDC/HO/3118-19/ET/111

E-Tenders in three bid systems are invited for "APPOINTMENT OF CONSULTANT FOR CONSTRUCTION OF STOCK YARD AT VISAKHAPATNAM".

Detailed SOT/NIT and tender document including pre-qualification requirements can be viewed/downloaded from NMDC's website <http://www.nmdc.co.in/nmcdtender/default.aspx>. CFP Portal: www.eprocure.gov.in in latest active tenders and MSTC Website: http://www.mstc.commerce.com/eprocure/nmcd/buyer_login.jsp from 10-05-2018 to 12-06-2018.

The tenders are required to visit the above mentioned websites for corrigendum, Enquiry, at a future date.

For further clarification, GM (Contracts), NMDC Ltd., Hyderabad can be contacted on Fax No. 040-23534746, email: contracts@nmcd.co.in
 Executive Director (Engg. & Projects)

EAST DELHI MUNICIPAL CORPORATION
 Office of the Executive Engineer (Project-I)

Shahdara (North) Zone, G.T. Road, Opposite Shyam Lal College, Shahdara, Delhi-110032

NOTICE INVITING E-TENDER (Online)

NIT No. D/EE-Pr. SHN/LTC/2018-19/05 Dated: 07.05.18
 1. Last Date of Download of Tender : 18.05.18 upto 15:00 Hours
 Documents
 2. Last Date of Bid Preparation and Hash Submission : 18.05.18 upto 15:00 Hours
 3. Last Date of Close for Bidding : 18.05.18 from 15:01 Hours to 16:00 Hours
 4. Date of Re-encryption online bid from : 21.05.18 upto 15:00 Hours
 5. Opening of Technical Bid (S.N. 1 to 4) : 21.05.18 at 15:01 Hours
 6. Opening of Financial Bid (S.N. 5) : 21.05.18 at 15:01 Hours
 7. Opening of Financial Bid (Tentative) (S.N. 1 to 4) : 25.05.18 at 15:01 Hours

The online item rate tenders are invited by the Executive Engineer Project (Shah-N.) G.T. Road, Opposite Shyam Lal College, Shahdara, Delhi-110032. ED/MC on behalf of the Commissioner, ED/MC on two bid system i.e. technical and financial bid under two cover system from the contractor (open tenders) at Sr. No. 1 to 4 and Financial bid for item No. 5, who fulfill the conditions given online tender for execution of these works :-

S.	Name of Work	Head of Account	Estimate No.	Tender No.
1.	Providing and fixing open air gym equipments in Central Park, in A-3, A-4, E-3 Nand Nagari in Ward No.32E, Shahdara (North) Zone.	XL-VIII-V	82,650/-	307784
2.	Providing and Installation open air gym equipment in 3 parks in various locations i.e. Nutan Vidhya Mandir GTB Enclave, C Block Central Park, Poeket A Dilshad Garden, in Ward No. 35E in Dilshad Garden Shahdara (North) Zone.	XL-VIII-V	82,650/-	307785
3.	Providing and Installation open air gym equipments in (1) Chaitr Wala Park, H Block, Naveen Shahdara (2) Jhulewala Park, Gali No. 4, Subhash Park, (3) Tikona Park K Block, Naveen Shahdara, (4) Panarsham Park, Panchsheel Garden in Ward No. 39-E in Shahdara (North) Zone.	XL-VIII-V	1,10,850/-	307786
4.	Providing and Installation open Air Gym equipment at various locations of Ward No. 51-E Shahdara (North) Zone.	XL-VIII-V	82,650/-	307787
5.	Improvement Development of Welcome Seelampur (I) by Pkg. RMC from H Road to EDMC Pkry School Seelampur (Uttar) via Photo Chowk in C-24B/AC-64 in Welcome Colony. TYADB	TYADB	1,38,650/-	307788

Estimated Cost put to Tender : Item Rate, for all the above works. Time of Completion : 02 Months each, for Sl. No. 1, 2 & 4, 03 Months each for Sl. No. 3 & 5. Rate hold good for 06 Months each, for all the above works. Tender Cost: Rs. 1,000/- each, for all the above works.
 Tenders are available on the website <http://www.tenders.mcd.com>

Deep Insights



THE MOST AWESOME BUSINESS DAILY THERE IS.



